



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 191]

नई दिल्ली, बुध्दतिवार, सितम्बर 28, 1978/आश्विन 6, 1900

No. 191]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 28, 1978/ASVINA 6, 1900

हस भाग में मिल पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह छलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1978

सार्वजनिक सूचना सख्या 66-ई० टी०सी० (पी०एन०)/78

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय—अंगोरा बकरी के बाल अथवा मोहैर का छोड़कर कच्चे ऊन (देशी) की निर्यात नीति।

मिसिल सख्या 15/1/78-ई० 1:—1978-79 की निर्यात नीति के पृष्ठ 27 पर क्र० सं० 65 के सामने वर्णित गई अंगोरा बकरी के बाल अथवा मोहैर से भिन्न कच्चे ऊन (देशी) को निर्यात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2 स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि 1978-79 की निर्यात नीति के पृष्ठ 27 पर क्र० सं० 65 के सामने कालम 3 में वर्तमान प्रविष्टि को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा,—

“(1) सीमित उच्चतम सीमा के अन्तर्गत कच्चे ऊन का निर्यात 40 काउन्ट तक अनुमेष होगा।

(2) 40 काउन्ट से अधिक कच्चे ऊन का निर्यात अनुमेष नहीं होगा।”

673 GI/78—8

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

New Delhi, the 28th September, 1978

PUBLIC NOTICE NO. 66-ETC(PN)/78

EXPORT TRADE CONTROL

Subject:—Export Policy of Raw Wool (indigenous) except Angora goat hair or Mohair.

F No. 15/1/78 EI.—Attention is invited to the export policy of Raw Wool (indigenous) except Angora goat hair or Mohair, as appearing against S. No. 65 at page 27 of Export Policy 1978-79.

2. On a review of the position, it has been decided that the existing entry in column 3 against S. No. 65 at page 27 of Export Policy 1978-79 shall be substituted as under:—

“(i) Export of raw wool upto 40 counts will be allowed within a Limited Ceiling.

(ii) Raw Wool above 40 counts will not be allowed for export.”

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1978

सार्वजनिक सूचना सं० 67 ई०टी०सी०/(पी०एन०)/78

विषय—1978-79 अधि के निर्यात लकड़ी और इमारती लकड़ी का निर्यात।

मिसिल सख्या 6(1)/78-ई० 1:—उपर्युक्त विषय पर वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 28 ई०टी०सी०/(पी०एन०)/78, दिनांक 19-8-78 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

(1015)

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना के पैरा 2(4) में दी गई 'संसाधित इमारती लकड़ी' की परिभाषा के स्थान पर निम्नलिखित परिभाषा प्रतिस्थापित की जाए :—

“संसाधित इमारती लकड़ी का अर्थ है—वह इमारती लकड़ी जो केवल चिरी हुई ही न हो बल्कि ठीक अपेक्षित स्थिति के अनुसार आकृति दी गई हो और कारीगरी की गई हो अर्थात् अंतिम उपयोग के लिए तैयार हो और जिसमें (क) पृष्ठावरण, प्लाई-वुड, कोर-बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और कारखाने में निर्मित ऐसे ही अन्य उत्पाद, और (ख) फर्नीचर की सवें, दरवाजों और खिड़कियों के फ्रेम, दरवाजों के हैंडल, संगीत औजार और अन्य उपभोक्ता सवें, संयोजित की हुई या टोकी हुई वशा में, शामिल हैं।

का० वें० शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

New Delhi, the 28th September, 1978

**PUBLIC NOTICE NO. 67-ETC(PN)/78**

**Subject:—Export of Wood and Timber for the period 1978-79.**

**F. No. 6(1)/78-EL**—Attention is invited to the Department of Commerce Public Notice No. 28-ETC(PN)/78 dated 19-5-1978 on the above subject.

2. On a review of the situation, it has been decided that the definition of “processed timber” given in Paragraph 2(iv) of the aforesaid Public Notice, may be substituted as under :—

“Processed timber means timber which has not only been sawn but also planed and worked to the exact required condition, that is to say, is ready for end-use, and includes (a) veneer, ply-wood, core-board, particle board and such other factory made products as well as (b) items of furniture, door and window frames, door handles, musical instruments and other consumer items, in assembled or knocked down condition”.

**K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports**